

AS-658

B.Com. (Part—II) Examination
INCOME TAX AND AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :— ALL questions are compulsory.

SECTION—A

(Income Tax)

1. (A) Write on 'Agricultural Income'. 5
- (B) Write the items of income included in 'Casual Income'. 5

OR

- (C) What do you mean by 'Assessment Year and Previous Year' ? 5
- (D) Write on 'Person'. 5
2. Compute income from salary of Mr. Hemant Kumar (Delhi) for the previous year ending on 31st March 2016 from the following details :

(1) Basic Salary	₹ 25,000 P.M.
(2) Dearness Allowance (60% on basic salary)	
(3) Travelling Allowance	₹ 19,200 P.A.
(4) Reimbursement of Medical Bills	₹ 15,000
(5) Special allowance	₹ 1,44,000
(6) House Rent Allowance	₹ 1,44,000
(7) Own contribution to R.P.F.	₹ 36,000

- (8) Employer's contribution in R.P.F. ₹ 36,000
(9) City Compensatory Allowance ₹ 9,600 P.A.
(10) Bonus two months of Basic Salary
(11) Entertainment Allowance ₹ 400 P.M.

Employee paid house Rent ₹ 15,000 P.M. and professional tax ₹ 200 P.M.

15

OR

Dr. Sen is a medical practitioner. He gives you the following summary of cash book for the year ending 31st March 2016 :

To Balance	22,000	By Rent of Clinic	18,000
To Consultation fee	60,000	By Purchase of Medicines	38,000
To Visiting fee	45,000	By Staff Salaries	24,000
To Gift and Presents	8,000	By Surgical equipments	40,000
To Sale of Medicines	42,000	By Motor Car Expenses	8,000
To Life Insurance Maturity	1,00,000	By Purchases of Motor car	1,40,000
		By Household expenses	7,000
		By Balance	2,000
	2,77,000		2,77,000

Other Information :

- (1) 50% of Motor-car expenses incurred in connection with profession. Car purchased in December 2015.
(2) Gift and presents include ₹ 3,000 from relations.
(3) Closing stock of Medicine ₹ 12,000 and on 1-4-2015 opening stock was ₹ 4,000.
Compute his professional income for the assessment year 2016-17.

15

3. (A) Compute the Income from other sources of Mr. Mehta for the Assessment Year 2016-17 :

(1) Dividend from Foreign Company	₹ 700	
(2) Interest on Postal Savings Bank A/c	₹ 100	
(3) Ground Rent for land in Pathankot	₹ 5,000	
(4) Income from Agricultural land in Sri Lanka	₹ 10,000	
(5) Director's fees	₹ 2,000	5

- (B) Explain the deduction u/s 80 (CCG). 5

OR

- (C) Write the powers of an Income Tax Officer. 5

- (D) Explain the deduction u/s 80G. 5

SECTION—B

(Auditing)

4. (A) Explain the importance of verification. 5

- (B) Write the disadvantages of Annual Audit. 5

OR

- (C) Explain the Advantages of an internal check system. 5

- (D) What is Audit Programme ? 5

5. (A) Write a note on the appointment of the Company Auditor. 5

- (B) Explain the 'Audit Report'. 5

OR

- (C) Write the Power of a Company Auditor. 5

- (D) Explain the concept of 'Divisible Profit'. 5

6. Write on the audit of Banking Company in detail. 15

OR

- Which procedure would you apply, while Auditing of Insurance Company ? 15

AS-658

B.Com. (Part—II) Examination
INCOME TAX AND AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :— सर्व प्रश्न अनिवार्य आहे.

विभाग—अ

(आयकर)

1. (अ) 'कृषी उत्पन्न' यावर लिहा. 5
(ब) आकस्मिक आय मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या उत्पन्नाची पदे लिहा. 5
किंवा
(क) 'करनिर्धारण वर्ष आणि गतवर्ष' म्हणजे काय ? 5
(ड) 'व्यक्ति' या परिभाषेबद्दल लिहा. 5
2. श्री हेमंत कुमार (दिल्ली) यांची 31 मार्च 2016 ला संपणाऱ्या गतवर्षातील खालील माहितीवरून वेतनापासून उत्पन्नाचे आगणन करा :
 - (1) मूळ वेतन ₹ 25,000 प्रति माह
 - (2) महांगाई भत्ता 60% (मूळ वेतनाच्या)
 - (3) वाहतूक भत्ता ₹ 19,200 प्रतिवर्ष
 - (4) वैद्यकीय खर्च ₹ 15,000
 - (5) विशेष भत्ता ₹ 1,44,000
 - (6) घर भाडे भत्ता ₹ 1,44,000
 - (7) स्वतः प्रमाणीत भाविष्य निधीला अंशदान ₹ 36,000

- (8) सेवायोजकाने प्रमाणीत भविष्यनिधीत अंशदान ₹ 36,000
- (9) शहर क्षतिपूर्ती भत्ता ₹ 9,600 वार्षिक
- (10) बोनस (2 महिणे मूळ वेतणाच्या)
- (11) मनोरंजन भत्ता ₹ 400 प्रति माह

कर्मचार्याने ₹ 15,000 प्रति माह घरभाडे दिले. तसेच ₹ 200 प्रति माह व्यावसायिक कर दिला. 15

किंवा

डॉ. सेन यांचा वैद्यकीय पेक्षा आहे. त्यांनी 31 मार्च 2016 ला समाप्त होणाऱ्या वर्षातील रोख खात्याची थोडक्यात माहिती खाली दिलेली आहे :

प्रारंभण स्कंध	22,000	दवाखान्याचे भाडे	18,000
सल्ला शुल्क	60,000	औषधाची खरेदी	38,000
भेट शुल्क	45,000	कर्मचार्यांचे वेतन	24,000
बक्षीस (उपहार)	8,000	वैद्यकीय उपकरण	40,000
औषधाची विक्री	42,000	मोटार कार व्यय	8,000
जीवन विमा मॅच्युरीटी	1,00,000	मोटार कारची खरेदी	1,40,000
		घरघुती खर्च	7,000
		संवरण स्कंध	2,000
	2,77,000		2,77,000

अतिरीक्त सूचना :

- (1) कारचा 50% खर्च व्यावसायासाठी करण्यात आला. कार डिसेंबर 2015 मध्ये खरेदी केली होती.
- (2) बक्षीसामध्ये ₹ 3,000 नातेदारीकाकडून प्राप्त झालेले समाविष्ट आहे.
- (3) 1-4-2015 ला औषधीचा प्रारंभण खर्च ₹ 4,000 तर औषधीचा संवरण स्कंध ₹ 12,000 आहे.

करनिर्धारण वर्ष 2016-17 साठी व्यवसायापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गणना करा.

15

3. (अ) करनिर्धारण वर्ष 2016-17 साठी श्री मेहता यांचे 'इतर उत्पन्नापासून' मिळणारे उत्पन्नाची गणना करा :

(1) परदेशी कंपनी पासून प्राप्त लाभांश	₹ 700	
(2) पोस्ट ऑफिस बँक बचत खात्यावरील व्याज	₹ 100	
(3) पठाणकोट मध्ये असलेल्या भूमीचा किराया	₹ 5,000	
(4) श्रीलंका मध्ये असलेल्या कृषी भूमी पासून उत्पन्न	₹ 10,000	
(5) संचालक शुल्क	₹ 2,000	5

(ब) अनुच्छेद 80 (CCG) स्पष्ट करा.

5

किंवा

(क) आयकर अधिकाऱ्यांचे अधिकार स्पष्ट करा.

5

(ड) अनुच्छेद 80 G स्पष्ट करा.

5

विभाग—ब

(अंकेक्षण)

4. (अ) सत्यापन महत्व स्पष्ट करा.

5

(ब) वार्षिक अंकेक्षणाचे दोष लिहा.

5

किंवा

(क) अभ्यंतर अवरोध (अंतर्गत तपासणी) पद्धतीचे फायदे स्पष्ट करा.

5

(ड) अंकेक्षण कार्यक्रम म्हणजे काय ?

5

5. (अ) कंपनी अंकेक्षकाच्या नियुक्तीबाबत लिहा.

5

(ब) 'अंकेक्षण अहवाल' स्पष्ट करा.

5

किंवा

(क) कंपनी अंकेक्षकाचे अधिकार लिहा.

5

(ड) 'वितरणयोग्य नफा'ची संकल्पना स्पष्ट करा.

5

6. बँकींग कंपनीचे अंकेक्षणाबाबत सविस्तर लिहा.

15

किंवा

विमा कंपनीचे अंकेक्षण करताना तुम्ही कोणत्या प्रक्रियेचा वापर कराल ?

15

AS-658

B.Com. (Part—II) Examination
INCOME TAX AND AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

विभाग—अ

(आयकर)

1. (अ) 'कृषि आय' पर लिखिए। 5
- (ब) आकस्मिक आय में सम्मिलित की जानेवाली मदों को लिखिए। 5
- अथवा
- (क) 'करनिर्धारण वर्ष और पूर्व वर्ष' का अर्थ बताइये। 5
- (ड) 'व्यक्ति' इस संज्ञा पर लिखिए। 5
2. श्री हेमंत कुमार (दिल्ली) की 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए निम्नांकित विवरण से वेतन की आय ज्ञात कीजिए :
 - (1) मूल वेतन ₹ 25,000 प्रति माह
 - (2) मंहगाई भत्ता 60% (मूल वेतन का)
 - (3) यातायात भत्ता ₹ 19,200 प्रति वर्ष
 - (4) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति ₹ 15,000
 - (5) विशेष भत्ता ₹ 1,44,000
 - (6) मकान किराया भत्ता ₹ 1,44,000
 - (7) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी ने खुद अंशदान किया ₹ 36,000

- (8) प्रमाणित प्रॉविडेंट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान ₹ 36,000
- (9) शहर (नगर) क्षतिपूरक भत्ता ₹ 9,600 वार्षिक
- (10) बोनस (2 महीने का मूल वेतन)
- (11) मनोरंजन भत्ता ₹ 400 प्रति माह

कर्मचारी ने ₹ 15,000 मासिक मकान किराया दिया तथा ₹ 200 प्रति माह व्यवसाय कर दिया। 15

अथवा

डॉ. सेन पेशे से एक चिकित्सक है। वे आपको 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में रोकड़ खाते का निम्न संक्षेप देते हैं :

प्रारंभण स्कंध	22,000	दवाखाने का भाड़ा	18,000
परामर्श शुल्क	60,000	दवाई खरेदी	38,000
व्हिजीटींग शुल्क	45,000	कर्मचारी वेतन	24,000
गिफ्ट (उपहार)	8,000	वैद्यकीय उपकरण	40,000
दवाई की बिक्री	42,000	मोटर का व्यय	8,000
जीवन बीमा मेंच्यूरिटी	1,00,000	मोटर कार खरेदी	1,40,000
		गृहस्थी खर्च	7,000
		संवरण स्कंध	2,000
	2,77,000		2,77,000

अन्य सूचनाएँ :

- (1) कार के 50% खर्च पेशे के लिए किए गए। कार दिसम्बर 2015 में खरीदी गई थी।
- (2) उपहारों में ₹ 3,000 रिश्तेदारों से प्राप्त शामिल हैं।
- (3) 1-4-2015 को दवाओं का रहतिया ₹ 4,000 था और अंतिम रहतिया ₹ 12,000 है।

करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पेशे से आय की गणना कीजिए।

15

3. (अ) करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्री मेहता की अन्य साधनों से प्राप्त आय की गणना कीजिए :
- | | | |
|--|----------|---|
| (1) विदेशी कंपनी से लाभांश | ₹ 700 | |
| (2) डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज | ₹ 100 | |
| (3) पठानकोट में स्थित भूमि से किराया | ₹ 5,000 | |
| (4) श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय | ₹ 10,000 | |
| (5) संचालक शुल्क | ₹ 2,000 | 5 |
- (ब) आयकर धारा 80 (CCG) की कटौती स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) आयकर अधिकारी के अधिकार स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) आयकर धारा 80 G की कटौती स्पष्ट कीजिए। 5

विभाग—ब

(अंकेक्षण)

4. (अ) सत्यापन का महत्व स्पष्ट कीजिए। 5
- (ब) वार्षिक अंकेक्षण के दोष लिखिए। 5

अथवा

- (क) अभ्यंतर अवरोध प्रणाली के लाभ स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) अंकेक्षण कार्यक्रम के अर्थ लिखिए। 5

5. (अ) कंपनी अंकेक्षण के नियुक्ति के संबंध में लिखिए। 5
- (ब) 'अंकेक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)' स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) 'कंपनी अंकेक्षण के अधिकार' लिखिए। 5
- (ड) वितरण योग्य लाभ की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 5

6. बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण पर विस्तारपूर्वक लिखिए। 15

अथवा

- बीमा कंपनी के अंकेक्षण करते समय आप कौनसी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे ? 15